

Roll No.

AH-5136

B. Sc. (Home Science)/B. Sc. (Maths/Bio.)/

B. C. A./B. A. (First Semester)

Generic Elective Course (COGE-01)

EXAMINATION, Dec./Jan., 2024-25

COMMERCE

(Fundamental of Accounting)

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

Answer all questions.

खण्ड—अ

(Section—A)

नोट : सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है जिनका उत्तर एक या दो लाइन में देना है।

10×1=10

P. T. O.

[2]

AH-5136

All questions are compulsory. Each question carries 1 mark. Answer in 1 or 2 lines.

1. लेखांकन से आप क्या समझते हैं ?

What do you understand by Accounting ?

2. चालू व्यवसाय की अवधारणा क्या है ?

Explain going concern concept.

3. "प्रत्येक डेबिट का उतना ही क्रेडिट होता है।" यह नियम किस अवधारणा पर आधारित है ?

"Every debit has equal credit." Which concept this rule is related ?

4. लेखांकन मानक के उद्देश्य क्या हैं ?

What are the purposes of Accounting Standards ?

5. खाते कितने प्रकार के होते हैं ?

Which are the types of Accounts ?

6. रोकड़बही क्या है ?

What is Cash Book ?

[3]

AH-5136

7. तलपट क्या है ?

What is Trail Balance ?

8. ह्रास किसे कहते हैं ?

What is depreciation ?

9. आर्थिक चिट्ठा बनाने के क्या उद्देश्य हैं ?

What are the objects of preparing Balance Sheet ?

10. उद्यन्त खाता क्या है ?

What is Suspense Account ?

नोट : सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 4 अंका का है।

5×4=20

All questions are compulsory. Each question carries 4 marks.

1. किन्हीं चार लेखांकन सिद्धांतों का वर्णन कीजिए।

Explain any four accounting principles.

P. T. O.

[4]

AH-5136

2. तीन खाने वाली रोकड़बही क्या है ? इसका नमूना दीजिए।

What is three column cashbook ? Give its specimen.

3. खाते कितने प्रकार के होते हैं ? प्रत्येक खाते के डेबिट तथा क्रेडिट करने के नियम उदाहरण सहित समझाइए।

Which are types of Accounts ? Give the rules of debit and credit of each account with example.

4. लाभ-हानि खाता तथा चिट्ठे में क्या अंतर है।

What is the difference between a Profit & Loss Account and Balance Sheet ?

5. लेखांकन के क्षेत्र में कम्प्यूटर का क्या महत्व है ?

What is the importance of computer in the field of accounting ?

खण्ड—ब

(Section—B)

नोट : सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न हल कीजिए।

4×10=40

[5]

AH-5136

All questions are compulsory. Each question carries 10 marks. Attempt *one* question from each Unit.

इकाई—1

(UNIT—1)

1. लेखांकन की मूलभूत अवधारणाओं एवं प्रथाओं से आप क्या समझते हैं ?

What do you understand by basic concepts and conventions of Accounting ?

अथवा

(Or)

भारत में लेखांकन पेशे के जनक श्री के. एस. अय्यर के योगदान का वर्णन कीजिए।

Describe the major contribution of Shree K. S. Ayer in India.

इकाई—2

(UNIT—2)

2. अग्रलिखित लेन-देनों से के. के. कम्पनी की पुस्तकों में रोजनामचा कीजिए :

P. T. O.

[6]

AH-5136

दिसम्बर

(₹)

2023

1	पूँजी से व्यापार प्रारंभ किया	50,000
6	बैंक में जमा किया	20,000
8	नगद माल खरीदा	4,000
9	राम को दिया	1,980
	उसने कटौती दी	20
10	नगद बिक्री	3,000
12	हरी को नगद माल बेचा	2,000
22	बैंक से निकाला	3,000
25	राम को चेक से भुगतान किया	500
27	व्यक्तिगत खर्च के लिए आहरण किया	300
31	वेतन एवं किराया क्रमशः ₹ 1,000 एवं ₹ 100 दिया	

[7]

AH-5136

Prepare Journal in the books of K. K. Company
from the following transactions :

December,

(₹)

2023

1	Started business with a capital	50,000
6	Deposited into Bank	20,000
8	Purchased goods for cash	4,000
9	Paid to Ram	1,980
	Discount allowed by him	20
10	Cash sales	3,000
12	Sold goods to Hari for cash	2,000
22	Drew from Bank	3,000
25	Paid to Ram by cheque	500
27	Drew for personal use	300
31	Paid Salary and Rent ₹ 1,000 and ₹ 100 respectively	

P. T. O.

[8]

AH-5136

अथवा

(Or)

मि. X ने एक पुरानी मशीन 1-5-2016 को ₹ 50,000 में खरीदी। ₹ 11,000 इसकी मरम्मत एवं ₹ 5,000 इसको लगाने पर, जो 30-6-2016 को पूरा हुआ, व्यय किया। कम्पनी अपनी मशीनरी पर 15% की दर से घटती शेष पद्धति से उस तिथि से ह्रास की व्यवस्था करती है जिस दिन इसे प्रयोग में लाया गया था और अपनी पुस्तकें प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को बंद करती है। मशीन को 31-1-2019 को ₹ 11,000 में बेच दिया गया और ₹ 1,000 हटाने का व्यय चुकाया गया।

2016-17 से 2018-19 तक का मशीन खाता बनाइए।

Mr. X purchased a secondhand machinery on 1-5-2016 for ₹ 50,000, paid ₹ 11,000 for its overhauling and ₹ 5,000 for its installation which was completed by 30-6-2016. The company provides depreciation on its machinery at 15% on diminishing balance method from the date it was

[9]

AH-5136

put to use and closes its books on 31st March every year. The machine was sold on 31-1-2019 for a sum of ₹ 11,000 and an amount of ₹ 1,000 was paid as dismantling charges.

Prepare Machinery Account from 2016-17 to 2018-19.

इकाई—3

(UNIT—3)

3. आर्थिक चिह्न, व्यापारिक खाता एवं लाभ-हानि खाता का क्या आशय है ? इन्हें क्यों बनाया जाता है ?

What is meant by Balance Sheet, Trading Account and Profit & Loss Account ? Why are they prepared ?

अथवा

(Or)

निम्नलिखित अशुद्धियों का सुधार कीजिए :

- (i) वैद्यनाथ को ₹ 350 का माल बेचा गया, विक्रय बही में ₹ 530 लिख दिए गए।

P. T. O.

- (ii) मोती से ₹ 1,450 का क्रय किया गया किंतु क्रय बही में ₹ 1,540 खताया गया।
- (iii) नारायण को ₹ 152 का माल बेचा गया किंतु विक्रय बही में ₹ 125 का लेखा किया गया।
- (iv) क्रय बही में ₹ 1,000 से कम जोड़ लगाया गया है।
- (v) राम को वेतन के लिए ₹ 1,000 दिए गए जिसे उसके व्यक्तिगत खाते में डेबिट कर दिया गया।

Rectify the following errors :

- (i) Goods sold to Vaidyanath ₹ 350 were entered in the Sales Book as ₹ 530.
- (ii) Goods purchased from Moti ₹ 1,450 were posted in the Purchases Book as ₹ 1,540.
- (iii) Goods sold to Narayan for ₹ 152 but were recorded in the Sales Book as ₹ 125.
- (iv) Purchase Day Book was undercast by ₹ 1,000.
- (v) ₹ 1,000 paid to Ram for salary was debited to his Personal Account.

इकाई—4

(UNIT—4)

4. कम्प्यूटरीकृत लेखांकन पद्धति को परिभाषित कीजिए।
मैन्युअल तथा कम्प्यूटरीकृत लेखांकन पद्धति में अंतर बताइए।

Define a Computerized Accounting System.
Distinguish between Manual and Computerized Accounting System.

अथवा

(Or)

कम्प्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली के लाभ व हानियों का वर्णन कीजिए।

Describe the advantages and disadvantages of Computerized Accounting System.